



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30052024-254444
CG-DL-W-30052024-254444

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 19—मई 25, 2024, शनिवार/ वैशाख 29—ज्येष्ठ 4, 1946
No. 19] NEW DELHI, MAY 19—MAY 25, 2024, SATURDAY/VAISAKHA 29—JYAISHTHA 4, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 2024

सा.का.नि. 62.—जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत संशोधित कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम 1937 की धारा 5 सी के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा विपणन और निरीक्षण निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगले आदेश तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षेत्र के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

क्र.सं.	न्यायनिर्णायक अधिकारी का नाम और पदनाम (सर्व श्री)	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)
1.	ब्रजेश कुमार तिवारी, संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश ¹ एवं हरियाणा ² में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली का गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र, उत्तराखंड और राजस्थान
2.	डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
3.	बिजय कुमार पृष्ठी, उप कृषि विपणन सलाहकार	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा
4.	डॉ. आशीष मुखर्जी, निदेशक प्रयोगशालाएं	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (कें शा.प्र)
5.	डॉ. डी.एम.गोविंदा रेड्डी, उप कृषि विपणन सलाहकार	कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी (कें शा.प्र)
6.	डॉ. आर. अनिल कुमार, उप कृषि विपणन सलाहकार	केरल और लक्षद्वीप (कें शा.प्र)
7.	डॉ. गजेंद्र सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार	उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र ¹ को छोड़कर
8.	एम.जवाहर, उप कृषि विपणन सलाहकार	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
9.	भावेश कुमार जोशी, उप कृषि विपणन सलाहकार	महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (कें शा.प्र)
10.	मनोज कुमार, उप कृषि विपणन सलाहकार	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र ² को छोड़कर, चंडीगढ़ (कें शा.प्र), जम्मू एवं कश्मीर(कें शा.प्र) और लद्दाख (कें शा.प्र)

¹उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर, अमरोहा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ज़िले।

²हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, हिसार, चरखी दादरी और सोनीपत ज़िले।

[फा. सं. क्यू-11047/05/एपी (जीएंडएम) अधिनियम/2022-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 22nd May 2024

G.S.R. 62.—In exercise of the power conferred under Section 5C of the Agricultural Produce (Grading & Marking) Act 1937 amended under Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act 2023, the Central Government hereby notifies the following officers of Directorate of Marketing and Inspection as adjudicating officers for the area mentioned against each from the date of publication of this notification until further orders:

Sl. No.	Name and designation of Adjudicating Officer (S/Shri)	Area of jurisdiction (States/ UTs)
1.	Brajesh Kumar Tiwari, Joint Agricultural Marketing Adviser	NCT of Delhi, Quality Control area of RO Delhi in Uttar Pradesh ¹ and Haryana ² , Uttarakhand and Rajasthan
2.	Dr. Surendra Kumar Singh, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Madhya Pradesh and Chhattisgarh
3.	Bijaya Kumar Prusty, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura
4.	Dr. Ashish Mukherjee, Director of Laboratories	West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands (UT)
5.	Dr. D. M. Govinda Reddy, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry (UT)
6.	Dr. R. Anil Kumar, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Kerala and Lakshadweep (UT)
7.	Dr. Gajendra Singh, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Uttar Pradesh except Quality Control area of RO Delhi ¹
8.	M. Jawahar, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Andhra Pradesh and Telangana
9.	Bhavesh Kumar Joshi, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Maharashtra, Goa, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (UT)
10.	Manoj Kumar, Deputy Agricultural Marketing Adviser	Punjab, Himachal Pradesh, Haryana except Quality Control area of RO Delhi ² , Chandigarh (UT), Jammu & Kashmir (UT) and Ladakh (UT)

¹ Bulandshahr, Amroha, Agra, Hathras, Aligarh, Mathura, Badaun, Bagpat, Moradabad, Rampur, Saharanpur, Bijnor, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Hapur, Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar districts of U.P.

² Faridabad, Palwal, Nuh, Gurugram, Rewari, Bhiwani, Mahendragarh, Jhajjar, Rohtak, Hisar, Charkhi Dadri and Sonapat districts of Haryana.

[F. No. Q-11047/05/AP (G&M) Act/2022-Std]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग) पुस्तकालय अनुशासन समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर के पद है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली में ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली ज्येष्ठ, पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग' पद)- भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।**
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित**

अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
1	2	3	4	5
ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर।	01* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/- रुपये)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
6	7	8
18 और 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष की आयु तक की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय: किसी ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों	लागू नहीं होता।

विज्ञापित की जाएगी। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।
9	10	11
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी, - टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अवर सचिव (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अनुभाग अधिकारी (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य;	लागू नहीं होता।

[फा. सं. L-50/17/2022-लिब]

मुग्धा सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 20th May, 2024

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, (Department of Culture) Library Discipline Group ‘C’ and Group ‘D’ posts Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Senior Library Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Library Attendant in the Central Secretariat Library, New Delhi, Ministry of Culture, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Central Secretariat Library, New Delhi, Senior Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Library Attendant.	01*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000 – 56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of	10 th class pass from a recognized Board. Desirable: Two years experience in a Library of repute.	Not applicable.

<p>forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Two years.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,-</p> <p>Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,-</p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Under Secretary (Library) in the Ministry of Culture – Chairman;</p>	Not applicable.

	2. Library and Information Officer in the Central Secretariat Library, Ministry of Culture — Member;	
	3. Section Officer (Library) in the Ministry of Culture — Member.	

[F. No. L-50/17/2022-LIB.]

MUGDHA SINHA, Jt. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 जहां तक यह भेषजज्ञ (प्रवेश श्रेणी), स्वास्थ्य आगंतुक और प्रयोगशाला सहायक के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले अधिक्रांत करते हुए किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में स्वास्थ्य आगंतुक, भेषजज्ञ, प्रयोगशाला सहायक के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, भेषजज्ञ, स्वास्थ्य आगंतुक और प्रयोगशाला सहायक गुप 'ग' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति जो:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, केंद्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पद चयनित है या गैर-चयनित	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भेषजज्ञ	1* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -5 (29200-92300 रूपए)	लागू नहीं होता।	आयु 18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण: अधिकतम आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी, न की असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल और अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह लद्दाख और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होती हैं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मैसी में डिप्लोमा; (ii) भारतीय भेषजज्ञ परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत; और (iii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में भेषजज्ञ के रूप में काम करने का तीन वर्षों का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिसमें कि प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना है	भर्ती किए जाने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टीकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-	लागू नहीं होता।

<p>संस्थान या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी:</p> <p>(क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद; और</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के स्तंभ (7) के अधीन विहित अर्हता और अनुभव रखना।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना — अध्यक्ष;</p> <p>2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल— सदस्य;</p> <p>3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय — सदस्य।</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्वास्थ्य आगंतुक	1* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रूपए)	लागू नहीं होता।	<p>आयु 18-27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)</p> <p>टिप्पण: अधिकतम आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी, न की असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से जीव विज्ञान के साथ एक विषय के रूप में जीव विज्ञान में 10 + 2;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैरामेडिकल डिप्लोमा या सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र</p>	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा होगी।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी:</p> <p>(क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद; और</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के स्तंभ (7) के अधीन विहित अर्हता और अनुभव रखना।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना – अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल – सदस्य; 3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय – सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. प्रयोगशाला सहायक	1* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-3 (21700-69100 रूपए)	लागू नहीं होता।	<p>आयु 18-27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)</p> <p>टिप्पण: अधिकतम आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी, न की असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल की प्रयोगशाला में काम करने का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी: (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर धारित सादृश पद; और (ख) सीधी भर्ती के स्तंभ (7) के अधीन विहित अर्हता और अनुभव रखना। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना – अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल – सदस्य; 3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/20/2023-ई-III]

राजू, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 20th May, 2024

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2012, in so far as it relates to the posts of Pharmacist (Entry Grade), Health Visitor, and Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of Health Visitor, Pharmacist, Laboratory Assistant in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Pharmacist, Health Visitor and Laboratory Assistant Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pharmacist.	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Diploma in Pharmacy from a recognised institute; (ii) registered with the Pharmacy Council of India; and (iii) three years experience of working as Pharmacist in a recognised hospital.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion, or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institution or autonomous bodies or statutory organisations: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-terms contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering selection/ confirmation) consisting of:- 1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Chairperson; 2. Chief Medical Officer, Farakka Barrage Project Hospital – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Health Visitor.	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4. (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled

					<p>Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) 10+2 in Science with Biology as one of the subject from a recognised board or institute;</p> <p>(ii) Paramedical Diploma or certificate in public health and sanitation technology from a recognised institution.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institution or autonomous bodies or statutory organisations:</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-terms contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering selection/ confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Chairperson; 2. Medical Officer, Farakka Barrage Project Hospital – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Laboratory Assistant.	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3. (Rs.21700-69100).	Not applicable.	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and up to

					<p>45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) Degree in Science with Chemistry as one of the subject from a recognised University.</p> <p>(ii) two year experience of working in a Laboratory in a recognised Hospital.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract): Officers under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institution or autonomous bodies or statutory organizations:</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering selection/confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Chairperson; 2. Medical Officer, Farakka Barrage Project Hospital – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Jal shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member. 	Not applicable.

[F. No. A-12018/20/2023-E-III]

RAJU, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**(North Eastern Council Secretariat, Shillong)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 17th May, 2024

G.S.R. 65.—In the notification of the Ministry of Development of North Eastern Region number GSR 25, dated the 23rd February, 2023 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th March, 2023, in the Schedule, in column (11), in clause (b), in sub-clause (ii), for the word “hydrology planning” read “hydrology or planning”.

[F. No. NEC-17/1/2022-O/o US(NEC)]

JAYA SHAH, Under Secy.